

गोविंद की फिटनेस यात्रा केवल दौड़ तक ही सीमित नहीं है। वे Bindaas Foundation नामक संस्था के माध्यम से **फिटनेस**, **नेचर एक्सप्लोरेशन और स्वस्थ जीवनशैली** को बढ़ावा देते हैं। वे साइक्लिंग, ट्रेकिंग और कैंपिंग जैसे कार्यक्रमों में भी सक्रिय हैं और समुदाय को [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] करते हैं।

वे पहले उदयपुर से बेगलुरु, और मणाली से खारदुंग ला पास तक साइकिलिंग कर चुके हैं — जिसमें उन्होंने अपने खुद के अनुकूलित साइकिल का उपयोग किया ।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.